



## \*प्रेस विज्ञप्ति\*



**\*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक जून 02, 2022\***

**\*यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 196 वाहनों का चालान किया गया तथा 14 वाहन से 12500/- ₹0 का समन शुल्क वसूल किया गया।

**\*शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल-57 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

**\*पैदल गश्त अभियान-\*** श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

**\*आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त प्रमोद पुत्र ओमप्रकाश नि0 बरगदही थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 16 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 66/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में की गयी कार्यवाही-\***

**\*थाना कोतवाली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त 1. मनोज पाण्डेय पुत्र सुरेन्द्र पाण्डेय नि0 रायपुर थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज व 2. अभियुक्त अमरुद्दीन अंसारी पुत्र सेराजुद्दीन अंसारी नि0 बभनौली बुजुर्ग थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 217/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

**\*थाना ठूठीबारी पुलिस द्वारा की गयी कारवाही-\***अभियुक्त 1. विन्ध्यांचल मद्धेशिया पुत्र अजय 2.सुमित गुप्ता पुत्र अजय 3. राहुल मद्धेशिया पुत्र अजय 4. महेश्वर सिंह पुत्र लक्ष्मी नि0 व थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज व 5. विष्णु गुप्ता उर्फ कृष्णमोहन पुत्र बद्री प्रसाद नि0 राजाबारी थाना ठूठीबारी जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना ठूठीबारी पर मु0अ0सं0 78/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*थाना बृजमनगंज पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-\*** अभियुक्त 1. संजय सिंह पुत्र स्व0 परमहंश नि0 बूढवाटोला गौरा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर 2. अभय सिंह उर्फ शेरू पुत्र संजय सिंह नि0 उपरोक्त के विरुद्ध थाना बृजमनगंज पर मु0अ0सं0 96/22 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

**\*विवेचनाओं का निस्तारण-\*** पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-18 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

**\*जनपद में 02.06..2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 58 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।\***